



कृषि विज्ञान केन्द्र, मानपुर, गया (बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर)



ई0 मनोज कुमार राय, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान
मोबाईल सं०: 9122386485

Website: www.gaya.kvk4.in

E-mail Id: kvkmanpurgaya@gmail.com

सं०: 269/कृ. वि. के., मानपुर, गया/24-25

दिनांक: 11 / 12 / 2024


अति आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealer (DAESI) Programme हेतु कृषि विज्ञान विज्ञान केन्द्र, मानपुर, गया (Nodal Training Institute) को MANAGE, Hydrabad द्वारा दिये गये मार्गदर्शिका में निहित अर्हता, कर्तव्य एवं दायित्व के क्रम में संविदा पर एक वर्ष के लिए (डिप्लोमा की अवधि तक) मानदेय ₹17,000/- प्रति महिना पर एक Facilitator के अस्थायी नियोजन किया जाना है। ईच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 20.12.2024 तक अपना आवेदन में बायोडाटा के साथ वांछित दस्तावेज सहित इस कार्यालय में जमा करें। फेसिलिटेटर के चयन हेतु निर्धारित मापदंड निम्नवत् है-

- Graduate/Post Graduate in Agriculture/Horticulture with 5 Years' experience in these sectors. Preference would be given to agriculture graduates having an experience of around 20 years in Department of Agriculture, SAUs or KVKs with sufficient filed experience.
- The candidate should have adequate knowledge about the agricultural activities undertaken in the districts, experience in organizing training programs and should be capable of mobilizing input dealers for DAESI Program.
- Preference will be given to the candidate having higher qualification and experience.

Responsibilities of DAESI Facilitator

- ❖ Publicity to DAESI program among input dealers in Gaya district.
- ❖ Liaison with agribusiness companies and State Governments for promotion of DAESI.
- ❖ Mobilization of input Dealers for the program and collection of input dealer contribution towards course fee (DD) in favour of KVK, Manpur, Gaya
- ❖ Identification of resource persons for sessions and institutes/research stations/progressive farmers' field for field visits.
- ❖ Organizing classes on Sundays or on Market Holidays.
- ❖ Preparation of location-specific study material.
- ❖ Conducting quizzes/practical/final exam/viva-voce and evaluation.
- ❖ Documentation of success stories and data management
- ❖ Coordination with officials of NTIs, ATMA and SAMETI/BAMETI, as required.
- ❖ Maintenance of records and submission of reports.
- ❖ Any other activities assigned by NTIs/ATMA


11.12.24

Senior Scientist and Head
KVK Manpur, Gaya